



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2003 (कार्तिक 17, 1925)
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2003 (KARTIKA 17, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं. ए-32014/1/2003-प्रशा-1-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों को उनके नाम के सामने दी गई अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारकों के मिलने तक, उनमें से जो भी पहले हो, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में निजी सचिव (ग्रेड 'क' एवं 'ख' विलयित) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	अवधि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	अविनाश अग्रवाल	3.9.2003 से 30.11.2003
2.	नीलेश मिश्रा	1.9.2003 से 30.11.2003
3.	के. बी. आहूजा	-वही-

1	2	3
4.	सुश्री पी. के. चड्ढा	1.9.2003 से 30.11.2003
5.	विरेंद्र कुमार (अ. जा.)	10.9.2003 से 30.11.2003

उपर्युक्त व्यक्तियों की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है। उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड में नियमित नियुक्ति/विलयन अथवा वरिष्ठता का कोई हक प्राप्त नहीं होगा।

एस. आनन्दन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. ए-32014/1/2003-प्रशा-3-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के के.स.से. संवर्ग के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को

उनके नाम के सामने दी गई अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर डेस्क अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	तदर्थ नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	वीरेन्द्र मोहन	1.10.2003 से 31.12.2003 तक
2.	डी. सी. मदान	-वही-
3.	आर. एस. राघवन	-वही-
4.	बी. एम. शर्मा	-वही-
5.	बी. डी. जैन	-वही-
6.	श्रीमती नीलम वोहरा	1.9.2003 से 31.12.2003 तक
7.	रूपक चौधरी	-वही-
8.	आर. सी. राजपूत	-वही-
9.	एस. एम. डी. चावला	-वही-
10.	कर्ण सिंह	-वही-
11.	डी. आर. नागपाल	-वही-
12.	भीम सिंह	-वही-
13.	टी. के. गुलाटी	-वही-
14.	राम सिंह (अ. जा.)	-वही-

उपर्युक्त व्यक्ति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 अक्टूबर 2000 के का.ज्ञा.सं. 2/24/97 पी.आई.सी. के अनुसार 300/- रु. प्रतिमाह की दर से डेस्क भत्ता प्राप्त करेंगे।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 32014/1/2003-प्रशा. 3--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में के.स.से. संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के सामने दी गई अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	तदर्थ पदोन्नति की अवधि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	संदीप कुमार	1.10.2003 से 31.12.2003 तक
2.	राजीव अत्री	-वही-
3.	रामजी पांडे	-वही-
4.	दीपांकर दत्ता-II	-वही-
5.	गोपाल झा	-वही-

1	2	3
6.	नरेन्द्र सिंह	1.10.2003 से 31.12.2003 तक
7.	प्रवीण शर्मा	-वही-
8.	आर.के. वत्स	-वही-
9.	आर.पी. डिमरी	-वही-
10.	एम.एल. खुराना	-वही-
11.	डी.के. अरोड़ा	-वही-
12.	एस.एस. रावत	-वही-
13.	डी.एन. यादव	-वही-
14.	के. एस. आहुजा	1.9.2003 से 31.12.2003 तक
15.	अमित घोषाल	-वही-
16.	बी.एन. सहू	-वही-
17.	राम कुमार	-वही-
18.	राजेश शर्मा	-वही-
19.	किशोरी लाल (अ.जा.)	-वही-
20.	ए.एस. सहाय	-वही-
21.	किशन लाल	-वही-
22.	आर.के. बौडवाल (अ.जा.)	-वही-
23.	एन.के. अहलाक्ष (अ.जा.)	-वही-
24.	टी.टी.के. मुआन (अ.ज.जा.)	-वही-

यह पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर अस्थावधि रिक्तियों के लिए की गई है। तदर्थ पदोन्नति की अवधि को अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता, नियमित पदोन्नति सेवा पुष्टि आदि के लिए नहीं गिना जाएगा।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

सं. डी.पी/एडी. 5/2003/4471/11/06/2002-प्रशा. 5--राष्ट्रपति ने के.अ.ब्यूरो के निम्नलिखित वरिष्ठ अधीक्षकों को पदोन्नति पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तारीख से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस उपमहानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पुलिस उपमहानिरीक्षक के रूप में कार्य ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	एम. नारायणन	07.10.2003 (अपराह)
2.	एम. राम	08.10.2003 (पूर्वाह)

एस.डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डी.पी./एडी. 5/2003/4477/3/10/97-प्रशा. 5--डॉ. आर.के. गर्ग, भा.पु. सेवा (म.प्र. : 1986), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं, प्रत्यावर्तन पर, 25 अगस्त, 2003 अपराह्न से मध्य प्रदेश सरकार को वापस सौंप दी गई हैं।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

पूर्वोत्तर सेक्टर, के.रि.पु. बल, शिलांग मेघालय में दिनांक 01.09.2003 (पूर्वाह्न) से प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार का त्याग कर दिया है।

जोगीन्दर सिंह
कमान्डेंट (कार्मिक-3)

सं. डी.पी./एडी. 5/2003/4478/3/48/96-प्रशा. 5--श्री वाई. वी. सुंदर राव ने एक अक्टूबर, 2003 पूर्वाह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस.डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

सं. ई-16016(5)/96/कार्मिक-1/33-- डॉक्टर (श्रीमती) आर.एम. फर्नेस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस.जी.) का के.ओ.सु.ब. रा.ओ.सु.अ. हैदराबाद से के.स.स्वा.यो. हैदराबाद में स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप, डॉ. (श्रीमती) आई.एम. फर्नेस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस.जी.) ने 15.09.2003 के अपराह्न से मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस.जी.), के.ओ.सु.ब. रा.ओ.सु.अ., हैदराबाद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ह/- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

गृह मंत्रालय
(सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी)

हैदराबाद-500052, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

सं. 15011/7/2003-स्था.--भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय जापन संख्या 1-21017/16/2001-भा.पु.से. III-दिनांक 16 सितम्बर, 2003, श्री प्रकाश मिश्रा, भा.पु.से. अधिकारी (उड़ीसा : 77) को 8 अक्टूबर, 2003 पूर्वाह्न से स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में संयुक्त निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर 09 सितम्बर, 2006 तक या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

गणेश्वर झा
निदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
[कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)]

कोलकाता-700001, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं. डब्ल्यू. एम. 1/स्थापना/154--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-1 को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थाई तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों के अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे :--

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. ओ.दो. 3636/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.-राष्ट्रपति जी, डॉ. पल्लव मिश्रा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 25.09.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 108 आर.ए.एफ. बटालियन, के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक-1)

क्रमांक	नाम
1.	श्री सुरेश चन्द्र चक्रवर्ती
2.	श्री सुप्रभात मुखोपाध्याय

उपरोक्त अधिकारियों प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीना के अन्दर एफ.आर.22 (ए) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 अक्टूबर 2003

सं. पी.सात-4/2003-कार्मिक-3--श्री बलविंदर सिंह प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का दिनांक 01.09.2003 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार होने के फलस्वरूप उन्होंने कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,

पी.के. दास
उपमहालेखाकार (लेखा)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय
पु.सी. रेलवे, मालिगांव

गुवाहाटी-11, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

कर्मचारी कार्यालय आदेश संख्या : 80--श्री शुवेन्दु कुमार बेनार्जि,
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी दिनांक 30.09.2003 अपराह में निवर्तन
की आयु में सेवा निवृत्त हो गए।

महेन्द्र सिंह
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का कार्यालय

हैदराबाद-500004, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I—आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद
सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल)
“लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल)” के संवर्ग में रु. 7,500-250-12,000
के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथियों से पदोन्नति
प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदभार ग्रहण करने की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	पी. सुधाकर रेड्डी	10519.9.2003	22.9.2003 (पूर्वा.)
2.	एम. वेंकटेश्वर राव-III	113/3.10.2003	09.10.2003 (पूर्वा.)

उपर्युक्त पदोन्नतियां उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल
प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम
न्यायालय (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित याचिकाओं के परिणामों
के बशर्ते आदेशित हैं। भारत सरकार का ज्ञा.सं. एफ 7/1/80-स्था.
(पी. 1) दिनांक 26.9.1981 तथा एफ 13/26/82 स्था. (पी-1)
दिनांक 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर
देना होगा।

श्रीनिवासु
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय (ले व ह)

तिरुवनंतपुरम्, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

सं. स्था./ह व रो/ई IV पे/86--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
की (श्रीमती) आर. पट्टम्माल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, 30.09.2003
अपराह को अधिवर्षिता के कारण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति हो
गयी है।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 22 अक्टूबर 2003

सं. प्रशासन V/9-86/V/141--महालेखाकार (ले. व ह.), इस
कार्यालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7,450-225-

11,500/- रु. के वेतनमान में, हर एक के नाम के सामने दिखाई गई
तारीख से, सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

1.	श्रीमती एन. लीलावती	29.09.2003 पूर्वाह
2.	श्रीमती एस. ललितांबिका	30.09.2003 पूर्वाह
3.	श्री के. बालगोपालन नायर	30.09.2003 पूर्वाह

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार, (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय
श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं. 5/1/2003-सी.पी.आई.--सितम्बर, 2003 में औद्योगिक श्रमिकों
का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982 = 100)
499 (चार सौ नित्यानवे) के अंक पर स्थिर रहा।

आई. एस. नेगी
उप निदेशक

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं. ए-19018/1679/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु
उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, लुधियाना में लघु उद्योग संवर्द्धन
अधिकारी (यांत्रिकी), श्री एन. के. वर्मा को लघु उद्योग विकास संगठन
अन्तर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा
संस्थान, सोलन में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (यांत्रिकी) स्थापनापन
आधारित के पद पर दिनांक 28.08.2003 (पूर्वाह) से अगले आदेश
जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. बी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं. 5258/बी/ए-19011(1-जे.आर.सी.)/03--राष्ट्रपति जी, श्रीमती
राष्ट्रपाल चव्हाण तकनीकी सहायक (भू.वै.), भारतीय भूवैज्ञानिक
सर्वेक्षण को “भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ)” के पद पर पदोन्नति पर इसी
विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के न्यूनतम

वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 29.04.2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त नियुक्ति अस्थाई है तथा संक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए जाति सम्बन्धी सत्यापन के अध्वधीन है।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 5272/बी/ए-19011(1-ए.के.एम.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री अक्षय कुमार मिश्रा को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 22.07.2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 5287/बी/ए-19011(1-एम.टी.एम.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, सुश्री मंजुषा तुलसीराम महाजन को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 05.06.2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त नियुक्ति अस्थाई है तथा संक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए जाति सम्बन्धी सत्यापन के अध्वधीन है।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 5301/बी/ए-19011(1-एस.आर.एम.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री सीम्य रंजन मोहापात्रा को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 04.07.2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 2798/ए/ए-12011(5-ए.सी.एस.)/01/19बी--राष्ट्रपति जी, श्री अवधेश प्रताप सिंह को वेधन अभियंता (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक 25.08.2003 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 23 अक्टूबर 2003

सं. 2815/ए/ए-32013/4-वे.अभि.(कनि.)/97/19बी--राष्ट्रपति जी, श्री एन. के. चोपड़ा, वेधक, उत्तरी क्षेत्र, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को वेधन अभियंता (कनिष्ठ) के रूप में इसी विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के वेतन में स्थानापन्न रूप में, आगामी आदेशों तक सैद्धान्तिक रूप से 20.09.1999 (पूर्वाह्न) से यथा उनके निकटतम कनिष्ठ श्री आर. सद्गोपन के वेधन अभियंता (कनिष्ठ) के पद पर हुए पदोन्नति की तिथि से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 2834/ए/ए-32013/4-वे.अभि. (कनि.)/97/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (वेधन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को वेधक श्रेणी-II के रूप में पदोन्नति पर इसी विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान के नियमानुसार वेतन पर स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से नियुक्त करते हैं :-

क्रम	अधिकारियों के नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	प्रभावी तिथि
सं.			
	सर्वश्री		
01.	कुसुमा युद्ध बाबू	कोयला स्कंध, भा.भू.स., कोलकाता	27.08.2003 (पूर्वाह्न)
02.	मो. निसार अहमद	कोयला स्कंध, भा.भू.स., कोलकाता	27.08.2003 (पूर्वाह्न)
03.	के. वी. रेड्डी	दक्षिणी क्षेत्र, भा.भू.स., हैदराबाद	26.08.2003 (अपराह्न)
04.	च. यशुदास	दक्षिणी क्षेत्र, भा.भू.स., हैदराबाद	26.08.2003 (अपराह्न)
05.	आर. फकरुद्दीन	दक्षिणी क्षेत्र, भा.भू.स., हैदराबाद	28.08.2003 (पूर्वाह्न)
06.	एरेन्ना	दक्षिणी क्षेत्र, भा.भू.स., हैदराबाद	28.08.2003 (पूर्वाह्न)
07.	तपन कु. भट्टाचार्य	कोयला स्कंध, भा.भू.स., कोलकाता	29.08.2003 (पूर्वाह्न)
08.	श्री सुभाष चंद्र नन्दी	पश्चिमी क्षेत्र, भा.भू.स., जयपुर	28.08.2003 (पूर्वाह्न)
09.	निरंजन च. नाथ	कोयला स्कंध, भा.भू.स., कोलकाता	27.08.2003 (पूर्वाह्न)
10.	जयंत कुमार पॉल	कोयला स्कंध, भा.भू.स., कोलकाता	27.08.2003 (पूर्वाह्न)

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं. सी-292/725-स्टेनो (1)--निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-I को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निजी सचिव (ग्रुप 'बी'-राजपत्रित) के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम व. पदनाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री पी. श्रीधरन	01.10.2003
2.	श्री वी. के. कृष्णन	01.10.2003

डॉ. पी. नाग
भारत के महासर्वेक्षक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 29 सितम्बर 2003

सं. 26/2(2)/2003-सीसीएस/32--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एस. गांगुली, सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--10,500/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 11.08.2003 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक उसी केन्द्र में उप-मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

सं. 26/2(2)/2003-सीसीएस/33--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री वी. के. त्रिभूवन, सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--10,500/-), निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, मुम्बई को दिनांक 18.08.2003 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक उसी निदेशालय में उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 22 अक्टूबर 2003

सं. 7/2(1)/2001-एसयूएस/439--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री वी. वेंकटराज, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय को दिनांक 01.08.2003 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक उसी यूनिट में पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/जी (वेतनमान रु. 16,400-450-20,000/-) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

टी. एन. नायर
अवर सचिव

(विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड)

नवी मुम्बई-400705, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/2003/अक्तू-560--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'ई' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ', के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री टी. के. सुब्रमणियन
2.	श्री पी. जे. चाण्डी
3.	श्री पी. ए. वर्की

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/2003/अक्तू-561--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'एफ' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'जी', के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री जी. बी. गोखले
2.	डॉ. एम. रहमान
3.	श्री आर. ज़मान
4.	श्री एस. एस. अरोरा
5.	श्री के. वी. एस. शास्त्री
6.	श्री वी. शिवरुद्रप्पा

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/2003/अक्तू-562--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'जी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एच', के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री वाई. डी. परमार
2.	डॉ. एन. शिवप्रसाद

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

(प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र)

इन्दौर-452013, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं. केट/प्रशासन/भ.-807(2)/1114--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर ने श्री ए. के. गोस्वामी, सहायक लेखापाल को इस केन्द्र में वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- में सहायक लेखा अधिकारी के अवकाश रिक्त पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 30.06.2003 (पूर्वाह) से 25.09.2003 (अपराह) तक नियुक्त किया है।

एस. सी. जैन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(भारी पानी बोर्ड)

मुम्बई-400094, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

सं. भापाबो/भर्ती/1/2(47)/2003/839--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), भारी पानी संयंत्र (मणगूरू) के वैज्ञानिक सहायक/सी श्री सुनील कुमार दास को उसी कार्यालय में रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 1 फरवरी, 2003 के पूर्वाह से प्रभावी रूप में अगले आदेशों तक वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव
प्रशासन अधिकारी

सं. भापाबो/भ/1(18)--के/2003/841--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, श्री वीरेन्द्र विनायक कुलकर्णी, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, भारी पानी बोर्ड को रु. 7,050-250-12,000/- के वेतनमान में दिनांक 24 जून, 2003 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक भारी पानी संयंत्र (कोटा) में सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव
प्रशासन अधिकारी

(इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र)

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं. इगांपअके/ए-11013/2003-भर्ती--राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 सितम्बर, 2003 पूर्वाह से आगामी

आदेश तक इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में प्राथमिक वेतन 9,100/- रु. पर नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	प.प.सं./अनुभाग	नाम
1	2	3
1.	6492/ईडीजी	श्री सुधीर पात्री
2.	6043/ईएसएडी/एसईजी	श्री ई. एच. वी. मल्लेश्वर राव
3.	6404/आरपीजी	श्री जे. कोदन्डरामन
4.	6405/सीडी	श्री अभिजीत खोपकर
5.	6406/यूएसडीटीएस/एसईजी	श्री आर. जयसूर्या
6.	6407/एमटीडी/एमडीजी	श्री हेमंत कुमार
7.	6408/आरपीजी	श्री एन. देसीगन
8.	6409/एमएसडी	श्री एस. बालाजी
9.	6410/आरपीजी	श्री पी. वरदराजन

के. अश्वहम
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 17 अक्टूबर 2003

सं. ए-39012/1/2003/स्था.-1--राष्ट्रपति, श्री के. सेल्वारज, उड़नयोग्यता अधिकारी, नागर विमानन विभाग द्वारा सरकारी सेवा से दिए गए त्याग-पत्र को दिनांक 19 सितम्बर, 2003 (अपराह) से स्वीकार करते हैं।

रामचारी
उपनिदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली-3, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं. ए-31013/1/2003-स्था.-2--राष्ट्रपति, महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय के श्री अनिल कुमार हरबोला को तारीख 01.04.2003 से 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक (विनियमन और सूचना) के पद पर मूल क्षमता में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटारिया
उपनिदेशक, प्रशासन

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 15th September 2003

No. A-32014/1/03-Admn. I.—The President is pleased to appoint the following Grade 'C' Stenographers (Personal Assistant) of CSSS cadre of UPSC as Private Secretary (Grade 'A & B' merged) on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the office of UPSC for a period as shown against their names or till regular candidates became available, whichever is earlier:—

S. No.	Name	Period
	S/Shri	
1.	Avinash Aggarwal	03.09.2003 to 30.11.2003
2.	Neelesh Mishra	01.09.2003 to 30.11.2003
3.	K.B. Ahuja	-do-
4.	Ms. P.K. Chadha	-do-
5.	Virender Kumar (SC)	10.09.2003 to 30.11.2003

2. The appointment of above mentioned persons as Private Secretary is purely on ad-hoc basis and will not confer on them any title for regular appointment/absorption or seniority in the grade of Private Secretary of CSSS.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 13th October 2003

No. A. 32014/1/2003-Admn. III.—The President is pleased to appoint the following regular Section Officers of the CSS Cadre of Union Public Service Commission to officiate as Desk Officers on ad-hoc basis for the period indicated against each or until further orders whichever is earlier :—

S. No.	Name	Period of ad-hoc appointment
1	2	3
	S/Shri	
1.	Virendra Mohan	01.10.2003 to 31.12.2003
2.	D.C. Madan	-do-
3.	R.S. Raghavan	-do-
4.	B.M. Sharma	-do-
5.	B.D. Jain	-do-
6.	Smt. Neelam Vohara	01.09.2003 to 31.12.2003
7.	Roopak Chaudhuri	-do-

1	2	3
	S/Shri	
8.	R.C. Rajput	01.09.2003 to 31.12.2003
9.	S.M.D. Chawla	-do-
10.	Karan Singh	-do-
11.	D.R. Nagpal	-do-
12.	Bhim Singh	-do-
13.	T.K. Gulakti	-do-
14.	Ram Singh (SC)	-do-

They will draw Desk Allowance @ Rs. 300/- p.m. in terms of DOP&T's OM No. 2/24/97-PIC dated 16th October, 2000.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

No. A 32014/1/2003-Admn. III.—The President is pleased to appoint the following Assistants of the CSS cadre of Union Public Service Commission to officiate as Section Officers on ad-hoc basis for the period indicated against each or until further orders whichever is earlier:—

S. No.	Name	Period of ad-hoc Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	Sandeep Kumar	01.10.2003 to 31.12.2003
2.	Rajeev Attri	-do-
3.	Ramji Pandey	-do-
4.	Dipankar Dutta-II	-do-
5.	Gopal Jha	-do-
6.	Narendra Singh	-do-
7.	Parveen Sharma	-do-
8.	R.K. Vatsa	-do-
9.	R.P. Dimri	-do-
10.	M.J. Khorana	-do-
11.	D.K. Arora	-do-
12.	S.S. Rawat	-do-
13.	D.N. Yadav	-do-

1	2	3
	S/Shri	
14.	K.S. Ahuja	01.09.2003 to 31.12.2003
15.	Amit Goshal	-do-
16.	B.N. Sahoo	-do-
17.	Ram Kumar	-do-
18.	Rajesh Sharma	-do-
19.	Kishori Lal (SC)	-do-
20.	A.S. Sahay	-do-
21.	Kishan Lal	-do-
22.	R.K. Bodwal (SC)	-do-
23.	N.K. Ahlawat (SC)	-do-
24.	T.T.K. Muan (ST)	-do-

The promotion is purely on ad-hoc basis against short-term vacancies and the period of ad-hoc promotion will not be counted for seniority, regular promotion, confirmation etc. in the Section Officer's Grade.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 20th October 2003

No. DP/AD5/2003/4479/11/06/2002-AD.V—The President is pleased to appoint the following Senior Superintendents of Police, CBI as Deputy Inspector Generals of Police in the Central Bureau of Investigations, Special Police Establishment, on promotion, with effect from the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name of the Officer	Date of taking over as D.I.G.
	S/Shri	
1.	M. Narayanan	7.10.2003 (AN)
2.	M. Ram	8.10.2003 (FN)

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

No. DP/AD5/2003/4477/3/10/97-AD.V.—Services of Dr. R.K. Garg, IPS (MP:1986), Deputy Inspector General of

Police, Central Bureau of Investigation have been placed back at the disposal of Government of Madhya Pradesh with effect from the afternoon of August 25, 2003 on repatriation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

No. DP/AD5/2003/4478/3/48/96-AD.V.—Shri Y. V. Sundara Rao relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of October 01, 2003 on voluntary retirement.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY)

Hyderabad-500052, the 20th October 2003

No. 150117/2003-Estt.—Vide the Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 1-21017/16/2001-IPS. III dated 16th September 2003, Shri Prakash Mishra, IPS (OR:77) has been appointed as Joint Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad with effect from the forenoon of 08th October 2003 for a period upto 09th September 2006 or until further orders whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation.

GANESHWAR JHA
Director

(DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)

New Delhi-110003, the 13th October 2003

No. O. II-3636/03-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Pallav Mishra as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 25.09.2003 till further order. He is posted to 108 RAF BN, CRPF.

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers. I)

New Delhi-110003, the 17th October 2003

No. P. VII-4/2003-Pers-3.—Consequent on acceptance of his Voluntarily retirement w.e.f. 01.09.2003(FN) from the

post of Administrative/Section Officer, Shri Balvinder Singh, had handed over the charge of Administrative/Section Officer in the Office of IGP NES, CRPF Shillong, Meghalaya from the same date.

JOGINDER SINGH
Commandant (Pers-III)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 20th October 2003

No. E-16016(5)5/96/Pers. I/33.—Consequent upon transfer of Dr. (Smt.) I.M. Fernes, CMO(SG) from NISA CISF Hyderabad to CGHS Hyderabad, Dr. (Smt.) I.M. Fernes, CMO(SG) has relinquished the charge of CMO(SG) at NISA CISF Hyderabad on 15.09.2003(Afternoon).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL(A&E), WEST BENGAL)

Calcutta-700001, the 21st October 2003

No. WM-I/Estt./154.—Under the orders of the Pr. A.G.(A&E), W.B., the following Divisional Accounts Officers Grade I are hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Senior Divisional Accounts Officer in the present divisions/division noted against each till further order(s). They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Shri Suresh Chandra Chakraborty
2.	Shri Suprovat Mukhopadhyay

The above named officers may submit their options under FR 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Sr. DAO for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General(A/cs.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
N.E. RAILWAY, MALIGAON

Guwahati-781011, the 9th October 2003

S.O.O. No. 80—Shri Shuvendu Kumar Banerjee, Sr. Audit Officer, has retired on superannuation from Govt. service w.e.f. 30.09.2003(A/N).

Sd/- ILLEGIBLE
Principal Director of Audit

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT). I
ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 16th October 2003

Principal Accountant General (Audit). I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) of this Office to the cadre of "Audit Officers" (Civil) in the Scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No. & Date	Date of Assumption of charge
	S/Shri		
1.	P. Sudhakar Reddy	105/19.09.03	22.09.03(FN)
2.	M. Venkateswara Rao-III	113/3.10.03	09.10.03(FN)

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

They should exercise option within one month from the date of promotion in terms of Government of India O.M. No. F. 7/1/80-Estt. (P. I) dated 26.9.1981 and F. 13/26/82-Estt. (P. I) dated 08.02.1983.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 20th October 2003

No. O.E./E&C/EIVP/86—Smt. R. Pattammal, Senior Accounts Officer of IA&AD retired from service on superannuation on 30.09.2003 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

The 22nd October 2003

No. Admn. V/9-86/V/141—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Section Officers of this office as Assistant Officers in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500 with effect from the dates noted against each :—

1. Smt. N. Leelavathy 29.09.2003(FN)
2. Smt. S. Lalithambika 30.09.2003(FN)
3. Shri K. Balagopalan Nair 30.09.2003(FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR
LABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 31st October 2003

No. 5/1/2003-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base: 1982=100 has remained stationary at 499 (four hundred & ninety nine) for the month of September, 2003.

I. S. NEGI
Dy. Director

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 21st October 2003

No. A-19018/1679/2003-Admn(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri N.K. Verma, Small Industry Promotion Officer (Mechanical), Small Industries Service Institute, Ludhiana as Assistant Director (Grade II) (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 in Small Industries Service Institute, Solan with effect from the forenoon of 28.08.2003 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

KHAN MANTRALAYA
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 21st October 2003

No. 5258/B/A-19011(IJRC)/03/19A—The President is pleased to appoint Smt. Jaya Rashtrapal Chavhan, S.T.A.

(Geol.) Geological Survey of India to the post of Geologist (Jr.) in the same department in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 29.04.2003 until further orders.

The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of caste status furnished by the competent authority.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

No. 5272/B/A-19011(1-AKM)/03/19A—The President is pleased to appoint Shri Akshaya Kumar Mishra to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22.07.2003 until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

No. 5287/B/A-19011(1-MTM)/03/19A—The President is pleased to appoint Miss Manjusha Tulshiram Mahajan to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 05-06-2003 until further orders.

The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of caste status furnished by the competent authority.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

No. 5301/B/A-19011(1-SRM)/03/19A—The President is pleased to appoint Shri Saumya Ranjan Mohapatra to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 04.07.2003 until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

No. 2798A/A-12011(5-APS)/01/19B—The President is pleased to appoint Sri Awadhesh Pratap Singh to the post of Drilling Engineer (Junior) in Geological Survey of India in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity with effect from 25.8.2003 (FN) until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

The 23rd October 2003

No. 2815A/A-32013/4-DE(Jr.)97/19B—The President is pleased to appoint Sri N.K. Chopra, Driller, Northern Region, Geological Survey of India on Promotion as Drilling Engineer (Jr.) in the same department in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity notionally with effect from 20.09.1999 (FN) i.e. the date from which his immediate junior Sri R. Sadagopan was promoted to the post of Drilling Engineer (Jr.) until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

No. 2834A/A-32013/4-DE(Jr.)97/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India is pleased to approve the appointment of the following STA (Drilling) Geological Survey of India on promotion as Driller Grade-II in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officers	Present place of posting	Date of effect
1	2	3	4
1.	Sri Kusuma Buddha Babu	Coal Wing, GSI, Kolkata	27.08.2003(FN)
2.	Md. Nisar Ahmed	Coal Wing, GSI, Kolkata	27.08.2003(FN)
3.	Sri K.V. Reddy	Southern Region, GSI, Hyderabad	26.08.2003(FN)
4.	Sri Ch. Yesudas	Southern Region, GSI, Hyderabad	26.08.2003(FN)
5.	Sri R. Faqrudin	Southern Region, GSI, Hyderabad	28.08.2003(FN)
6.	Sri Eranna	Southern Region, GSI, Hyderabad	28.08.2003(FN)
7.	Sri Tapan Kr. Bhattacharjee	Coal Wing, GSI, Kolkata	28.08.2003(FN)

1	2	3	4
8.	Sri Subhash Chandra Nandi	Western Region, Jaipur	28.08.2003(FN)
9.	Sri Niranjana Ch. Nath	Coal Wing, GSI, Kolkata	27.08.2003(FN)
10.	Sri Jayanta Kumar Paul	Coal Wing, GSI, Kolkata	27.08.2003(FN)

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

**SURVEY OF INDIA
(SURVEYOR GENERAL'S OFFICE)**

Dehradun-248001, the 21st October 2003

No. C-292/725-Steno(1)—The undermentioned Stenographers Grade-I are hereby promoted to the post of Private Secretary (Group 'B'-Gazetted) in Survey of India in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date as shown against their names :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Promotion
1.	Shri P. Sreedharan	01.10.2003
2.	Shri V. Kunhi Krishnan	01.10.2003

DR. P. NAG
Surveyor General of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 29th September 2003

No. 26/2(2)/2003-CCS/32—The President is pleased to appoint Shri S. Ganguly, Security Officer (Scale of pay Rs. 6,500—10,500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Deputy Chief Security Officer (Scale of pay Rs. 10,000—15,200) in the same Centre with effect from the forenoon of 11.08.2003 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

No. 26/2(2)/2003-CCS/33—The President is pleased to appoint Shri V.K. Tribhuvan, Security Officer (Scale of pay Rs. 6,500—10,500/-), Directorate of Construction, Services & Estate Management, Mumbai of this Department as Deputy Chief Security Officer (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-) in the same Directorate with effect from the forenoon of 18.08.2003 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

Mumbai-400001, the 22nd October 2003

No. 7/2(1) 2001-SUS/439—The President is pleased to appoint Shri V. Venkaraj, Scientific Officer/Engineer 'F' (Rs. 14,300-400-18,300/-), Directorate of Construction, Service & Estate Management of this Department, on promotion to the grade of Scientific Officer/Engineer 'G' (Rs. 16,400-450-20,000/-) w.e.f. 01.08.2003 in the same unit, until further orders.

T. N. NAIR,
Under Secy.

BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400705, the 21st October 2003

No. BRIT/9/17/AUG/2003/O-560—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'F' in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 01, 2003 until further orders.

Sl. No.	Name
1.	Shri T. K. Subramaniyan
2.	Shri P. J. Chandy
3.	Shri P. A. Varkey

O. BHARATHAN
Admn. Officer-III

No. BRIT/9/17/AUG/2003/O-561—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'F' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'G' in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000 in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 01, 2003 until further orders :—

Sl. No.	Name
1.	Shri G.B. Gokhale
2.	Dr. M. Rahman
3.	Shri R. Zaman
4.	Shri S.S. Arora
5.	Shri K.V.S. Sastry
6.	Shri V. Shivarudrappa

O. BHARATHAN
Admn. Officer-III

No. BRIT/9/17/AUG/2003/O-562—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'G' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'H' in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400 in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 01, 2003 until further orders :—

Sl. No.	Name
1.	Shri Y.D. Parmar
2.	Dr. N. Sivaprasad

O. BHARATHAN
Admn. Officer-III

CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 15th October 2003

No. CAT/Admn./R-807(2)/1114—Director, Centre for Advanced Technology, Indore has appointed Shri A.K. Goswami, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500 on ad hoc basis with effect from the forenoon of 30.06.2003 to 25.09.2003 (AN) against leave vacancy.

S. C. JAIN
Chief Administrative Officer

(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-94, the 23rd October 2003

No. HWB/R/1/2(47)2003/839.—Chief Executive, Heavy Water Board (Central Office) appoints Shri Sunit Kumar Das, Scientific Assistant/C, Heavy Water Plant (Manuguru) as Scientific Officer/SB in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500 with effect from the forenoon of February 1, 2003 in the same office in a temporary capacity until further orders.

D. S. RAO
Administrative Officer

No. HWB/R/1(18)-K/2003/841.—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Virendra Vinayak Kulkarni, Senior Hindi Translator, HWB, Mumbai as Assistant Director

(OL) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in Heavy Water Plant (Kota) with effect from the forenoon of 24th June, 2003 until further orders.

D. S. RAO
Administrative Officer

(INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH)

Kalpakkam-603102, the 15th October 2003

No. IGCRA/A-11013/2003-R.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officers/Engineers Grade "C" on an initial pay of Rs. 9100/- in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 1st September 2003 until further orders :—

Sl. No.	IC No/Section	Name
1	2	3
1.	6402/EDG	Shri Sudheer Patri
2.	6403/Esad/SEG	Shri E.H.V. Malleswara Rao
3.	6404/RpG	Shri J. Kodandaraman
4.	6405/CD	Shri Abhijeet Khopkar
5.	6406/USDTS/SEG	Shri R. Jayasthrya
6.	6407/MTD/MDG	Shri Hemant Kumar
7.	6408/RpG	Shri N. Desigan

1	2	3
8.	6409/MSD	Shri S. Balaji
9.	6410/RpG	Shri P. Varadharajan

K. ABRAHAM
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 17th October 2003

No. A-39012/1/2003/E.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri K. Selvaraj, Airworthiness Officer in the Civil Aviation Department from the Government Service with effect from 19th September 2003(A/N).

RAM DHARI
Dy. Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

New Delhi-110003, the 21st October 2003

No. A-31013/1/2003-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Harbola, in the grade of Assistant Director (Regulations and Information, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- of the office of the Director General of Civil Aviation, in the substantive capacity with effect from 01.04.2003.

R. S. KATARIA,
Dy. Director of Administration